

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम जनवरी, 2020

संख्या लैज. 41/2019.— दि मोटर वहीकलज (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 39**मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019**

मोटर यान अधिनियम, 1988, हरियाणा राज्यार्थ,
को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | यह अधिनियम मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। | संक्षिप्त नाम। |
| 2. | मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(ज) इस अध्याय के अधीन भुगतानयोग्य सभी फीसों या उनके किसी भाग के भुगतान से विहित व्यक्तियों या व्यक्तियों के विहित वर्गों को भूतलक्षी या भविष्यलक्षी प्रभाव से छूट;”। | 1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59 की धारा 65 का संशोधन। |

.....

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।